

Date: 15th August 2023

BSE Limited,

Corporate Relationship Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street,

Fort, Mumbai – 400 001

Security Code: 523716

National Stock Exchange of India Limited,

Listing Compliance Department

Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex,

Bandra - East,

Mumbai - 400 051

Security Code: ASHIANA

Dear Sir/Madam,

<u>Sub: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u>
Regulations, 2015, as amended

Ref: Updates regarding Offer for Buy Back of upto 18,27,242 fully paid-up equity shares of the face value of ₹ 2 each of Ashiana Housing Limited ("Company") at the price of ₹ 301/- per Equity Share on a proportionate basis through tender offer route using stock exchange mechanism ('Buy Back')

Please find enclosed copies of the Post Buy Back Public Announcement dated August 14, 2023 in relation to the Buy Back of 18,27,242 fully paid-up equity shares of the face value of ₹ 2 each of the Company at the price of ₹ 301/- per Equity Share on a proportionate basis through tender offer route, which was published today i.e. August 15, 2023 in the following newspapers:

- 1. Financial Express (English) All India edition
- 2. Jansatta (Hindi) All India edition
- 3. Ek Din (Bengali) Kolkata edition

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Ashiana Housing Limited

Mr. Nitin Sharma Company Secretary & Compliance Officer A21191

Encl: a/a

Ashiana Housing Ltd.

304, Southern Park, Saket District Centre,

Saket, New Delhi – 110 017

CIN: L70109WB1986PLC040864

Regd. Office: 5F Everest, 46/C Chowringhee Road, Kolkata – 700 071 011-42654265, Email: investorrelations@ashianahousing.com

Website: www.ashianahousing.com

FINANCIAL EXPRESS

Executive Director /Area-II

INDEPENDENCE DAY EVE ADDRESS

Maintain harmony, give priority to the deprived: President

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 14

OBSERVING THAT THERE is a new confidence in 'India story', President Droupadi Murmu on Monday urged the people to move forward with the spirit of brotherhood and stressed that their identity as "citizens of India" is above all other identities of caste, creed, language and region.

In her address to the nation on the eve of 77th Independence Day, President Murmu hailed India's economic performance amid the global uncertainty, saying the country has been a "beacon of hope" for others and has converted challenges into opportunities.

India has regained its rightful place on the world stage and enhanced its standing in the international order, she said and asserted that with the G20 presidency, the country can nudge decision-making in trade and finance towards equitable progress.

"The government has succeeded in protecting the common people from high inflation while also providing a more extensive security cover to the poor. The world looks up to India for global economic



President Droupadi Murmu addresses the nation on the eve of the 77th Independence Day, on Monday.

growth," she said.

President Murmu also pitched for the economic empowerment of women and appealed to tribal "brothers and sisters to enrich their traditions while embracing modernity". "Each of us has many identi-

ties – apart from caste, creed, language and region, we are also identified with our families and professions – but there is one identity that is above all. That is our identity as citizens of India. Each one of us is an equal citizen; each one of us has an equal opportunity, equal rights and equal duties, in this land," the President said.

"But it was not always so.

India is the mother of democracy and since ancient times we had democratic institutions functioning at the grassroots. But long years of colonial rule wiped them out. On 15th August 1947, the nation woke up to a new dawn. We not only won freedom from foreign rule

but also the freedom to rewrite

our destiny," she said. Underlining that the Constitution is the country's guiding document, Murmu said its Preamble contains the ideals of the freedom struggle. "Let us move forward with the spirit of harmony and brotherhood to realise the dreams of our nationbuilders," she said.

PM to deliver 10th straight **I-Day address**

PRIME MINISTER NARENDRA Modi will deliver on Tuesday his 10th consecutive Independence Day address - also his last before 2024 Lok Sabha polls - with a mood of anticipation around the annual showpiece event that he has used to present his government's report card and unveil flagship schemes.

There is a view that the prime minister may choose to chart the country's journey on his watch in various sectors since 2014 and outline his vision for the years ahead, something he has done in previous addresses as well.

India's rising global stature, new energy and purpose in pushing forward the country's development journey and increasing self-confidence of its population have been among the key themes of his speeches that have also highlighted the country's embrace of firm security and foreign policy doctrines guided solely by the national interest. **PTI**

Regd. Office: P.O. Adityanagar 326520, Morak, Dist. Kota (Rajasthan) CIN: L26943RJ1976PLC001705 TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only) Website: www.mangalamcement.com • email: shares@mangalamcement.com -Bids are invited for Open e-Tender (in Single Packet) for Licensing out of PUBLIC NOTICE-LOSS OF SHARE CERTIFICATES Space for repair of ISO/DSO Containers at ICD Mandideep (Madhya Pradesh). NOTICE is hereby given that following share certificates issued by the Company CON/AREA-II/(ISO/DSO) Container Repair. Tender No. are stated to be lost / misplaced and the registered holders thereof have applied MCT/2023. to the Company for issue of duplicate share certificate(s): Estimated Cost Rs. 2.91.49.487/- (Inclusive of GST) Share **Distinctive Numbers** Name of the Shareholder Folio No. of for Four (4) years. Certificate or Beneficiary Shares To From 15/08/2023 at 15:00 hrs. to 30/08/2023 Date of Sale (On Line) R000915 RASIKLAL MAGANLAL PAREKH 00031353 3766951 3767000 up to 16:00 hrs.) 50 ast Date & Time of submission | On 31/08/2023 up to 17:00 hrs. The Company will proceed to issue duplicate certificate(s)/confirmation letter(s) in respect of these shares if no valid objection is received at its registered office at the address given above within 15 days from the Date & Time of Opening On 01/09/2023 at 11:30 hrs. For Mangalam Cement Limited date of publication of this notice. For eligibility criteria and other details please log on to www.concorindia.com or eprocure.gov.in or www.tenderwizard.com/CCIL. Bidders are requested Date: 10.08.2023 Yaswant Mishra

President (Corporate) & CFO



ASHIANA HOUSING LIMITED

o visit the websites regularly.

Registered Office: 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata, West Bengal-700071 Correspondence Address: 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi-110 017 Tel. No.: +91 011-42654265

Corporate Identification Number (CIN): L70109WB1986PLC040864 Contact Person: Mr. Nitin Sharma, Company Secretary and Compliance Officer Email ID: investorrelations@ashianahousing.com; Website: www.ashianahousing.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS /BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF ASHIANA HOUSING LIMITED

This post Buy Back public advertisement (the "Post Buy Back Public Announcement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("SEBI Buy Back Regulations") regarding completion of the Buy Back. This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated July 13, 2023 published on July 14, 2023 ("Public Announcement") and the letter of offer dated July 29, 2023 ("Letter of Offer"), issued in connection with the Buy Back.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. BUY BACK

Place: Morak

- 1.1. Ashiana Housing Limited (the "Company") had announced the Buy Back of upto 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each of the Company ("Equity Shares" or "Shares"), at a price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One only) per Equity Share payable in cash for an aggregate amount of upto ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding expenses incurred or to be incurred for the Buy Back, which represents 7.23% and 7.32% of the aggregate of Company's fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2023 respectively, through the tender offer route using the stock exchange mechanism, on a proportionate basis from all the equity shareholders/beneficial owners of the Equity Shares of the Company as on the Record Date, in accordance with the Act and the SEBI Buy Back Regulations.
- 1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buy Back. The Buy Back was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, read with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular bearing number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023 including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- 1.3. The Buy Back Opening Date was Wednesday, August 02, 2023 and the Buy Back Closing Date was Tuesday, August 08, 2023.
- 2. DETAILS OF THE BUY BACK
- 2.1. The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Buy Back were 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares, at the price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One Only) per Equity Share.
- 2.2. The total amount utilized in the Buy Back was ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding Transaction Costs.
- 2.3. The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited ("Registrar"), considered a total of 15,659 valid bids for 7,69,46,135 Equity Shares in response to the Buy Back, which is approximately 42.11 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buy Back	No of valid Bids	Total no of Equity Shares validly tendered	Response (%)
Reserved category for Small Shareholders	2,74,087	14,587	12,30,298	448.87
General category for all other Eligible Shareholders	15,53,155	1,072	7,57,15,837	4,874.97
Total	18,27,242	15,659	7,69,46,135	4,211.05

- 2.4. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buy Back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was sent by the Registrar to the Eligible Shareholders, on Monday, August 14, 2023 (by email where the email id is registered with the Company or the depository) and was dispatched on Monday, August 14, 2023 (through physical intimation 2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on Monday, August 14,
- If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/ relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Seller Members for onward transfer to such shareholders. 2.6. Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buy Back were transferred to the Company's demat account on Monday, August 14, 2023. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders /custodians by

2023. Clearing Corporation has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buy Back.

- release of lien on such Equity Shares by the Clearing Corporation on Monday, August 14, 2023. Excess physical Equity Shares pursuant to proportionate acceptance/rejection will be returned back to the Eligible Shareholder directly by the Registrar to the Buy Back. 2.7. The extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted under
- the Buy Back, comprising of 18,27, 208 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Eight) Equity Shares in dematerialized form and 34 (Thirty Four) Equity Shares in physical form, is currently under process and will be completed in accordance with the SEBI Buy Back Regulations, on or before Tuesday, August 22, 2023.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1. The capital structure of the Company pre and post Buy Back is set forth below:

Sr. No.	Particulars	Amount (in ₹)
Α	Authorised Share Capital	
7.7	17,50,00,000 Equity shares of ₹ 2/- each	35,00,00,000
В	Issued, Subscribed and Paid Up Capital before the Buy Back	
	10,23,52,099 Equity shares of ₹ 2/- each	20,47,04,198
С	Issued, Subscribed and Paid Up Capital after the Buy Back*	
	10,05,24,857 Equity shares of ₹ 2/- each	20,10,49,714

"Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back 3.2. Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the

Buy Back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	Shares accepted under the Buy Back	as a % of the total Equity Shares bought back	of the total post Buy Back Equity Share capital of the Company*
1	Varun Gupta	3,99,241	21.85	0.40
2	Ankur Gupta	3,99,202	21.85	0.40
3	Vishal Gupta	2,77,207	15.17	0.28
4	Rachna Gupta	1,22,104	6.68	0.12
5	SBI Contra Fund	85,086	4.66	0.08
6	OPG Realtors Limited	34,176	1.87	0.03
7	ICICI Prudential Equity & Debt Fund	32,391	1.77	0.03
8	Cellour Commercial Pvt Ltd	20,104	1.10	0.02

*Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy Back (i.e., as of the Record Date, being Friday, July 28, 2023) and post the completion of the Buy Back is as follows:

	Pre Buy	Back#	Post Buy Back*		
Particulars	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	
Promoter and Promoter Group	6,26,58,716	61.22	6,14,26,786	61.11	
Financial Institutions / Banks/AIFs and Mutual Funds	72,92,408	7.12		de Contractor de Maria	
Foreign Investors (including Non Resident Indians / FPI / Foreign Nationals / Foreign Bodies Corporate etc.)	91,37,128	8.93	3,90,98,071	38.89	
Others (public, public bodies corporate, trust, etc.)	2,32,63,847	22.73			
TOTAL	10,23,52,099	100.00	10,05,24,857	100.00	

As on the Record Date

*Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back MANAGER TO THE BUY BACK

EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED



Contact Person: Mr. Deepak Yadav/ Mr. Pranav Nagar Regd. Off.: The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar-West, Mumbai - 400028, Maharashtra Tel. No.: +91 22 66121212; Fax No.: +91 22 66121299 Email id: ahl.buvback@emkavglobal.com

PRESSMAN

Website: www.emkayglobal.com SEBI Regn. No.: INM000011229 Validity Period: Permanent CIN: L67120MH1995PLC084899

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company ("Board") accepts responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that this Post Buy Back Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Post Buy Back Public Announcement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on July 12, 2023 and by the Buy Back Committee on August 14, 2023.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Vishal Gupta	Mr. Varun Gupta	Nitin Sharma
Managing Director	Director	Company Secretary and Compliance Office
DIN: 00097939	DIN: 01666653	(ICSI Membership No.: A21191)
Place: Frankfurt	Place: New Delhi	Place: New Delhi

Over 40 dead in Himachal as heavy rain triggers landslides, cloudbursts

RAAKHI JAGGA Ludhiana, August 14

AT LEAST 43 people lost their lives in landslides and cloudbursts as heavy rain lashed Himachal Pradesh for over 55 hours. According to officials,

deaths were recorded from Solan, Mandi, Shimla, Sirmaur. Hamirpur, Kangra and Chamba, prompting the state government to cancel all Independence Day functions. At least nine people died

when a temple in the Summer Hill area of Shimla collapsed around 7.15 am on Monday.

A railway track in Shimla hangs in air after the soil under it slid

The incident took place when an aarti was going on and, according to locals, more than 30 people were inside.

"The local administration is diligently working to clear the underway, he said at least 20-25 people were feared trapped under the debris. A few teachers of Himachal Pradesh University in Shimla were also missing – the university is close to the Shiva temple and officials said a few of them had gone to pay obeisance there. The Himachal Pradesh meteorological department had already issued a yellow alert in the state for

debris in order to rescue indi-

viduals who may still be trapped," Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu said.

As rescue operations were

Sunday and Monday and predicted rain until August 19.

TV18 Broadcast Limited

(CIN: L74300MH2005PLC281753)

Regd. Office: First Floor, Empire Complex, 414 - Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Phone: +91 22 4001 9000 / 6666 7777; E-mail: investors.tv18@nw18.com; Website: www.nw18.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY Eighteenth Annual General Meeting and Information on E-voting

Notice calling the Eighteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled to be held in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Tuesday, September 5 at 3:00 p.m. (IST), and the standalone and consolidated audited financial statements for the financial year 2022-23, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on August 14, 2023 electronically, to the Members of the Company. The Notice of AGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at www.nw18.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech"), at https://evoting.kfintech.com.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the Members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to investors.tv18@nw18.com.

Remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the service of KFinTech as the agency to provide e-voting

Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail address has been provided in the Notice of the AGM.

The manner in which (a) persons who become Members of the Company after despatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date (mentioned herein); (b) Members who have forgotten the User ID and Password, can obtain / generate the User ID and Password, has also been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of : 9:00 a.m. (IST) on Friday, September 1, 2023

remote e-voting End of remote e-voting: 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 4, 2023

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFinTech upon expiry of the aforesaid period.

financialexp.epapr.in

Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut-off Date, i.e., Tuesday, August 29, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting through Insta Poll.

Manner of registering / updating e-mail address:

- a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail address with the Company, are requested to register / update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at www.nw18.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to KFinTech at Selenium Tower B. 6th Floor. Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.
- b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their e-mail address, are requested to register / update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

In case of any query pertaining to e-voting, Members may refer to the "Help" and "FAQs" section / E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e-voting: https://evoting.kfintech.com.

Members are requested to note the following contact details for addressing queries / grievances relating to e-voting, if any:

Mr. V. Balakrishnan, Vice President, KFin Technologies Limited.

Selenium Tower B, 6th Floor, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Toll-free No.:1800 309 4001

(from 9:00 a.m.(IST) to 6:00 p.m. (IST) on all working days)

Joining the AGM through VC / OAVM:

E-mail: evoting.tv18@kfintech.com

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM, through JioMeet, at https://jiomeet.jio.com/tv18broadcastagm/. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in Note No. 9 of the Notice of AGM. Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

> For TV18 Broadcast Limited Ratnesh Rukhariyar

By Order of the Board of Directors

Date: August 15, 2023 Company Secretary

इमजेण्ट इण्डस्ट्रियल साल्यूशन्स लिमिटेड

(पूर्व का इमर्जेंट ग्लोबल एड एण्ड सर्विसेज लिमिटेड) सीआईएन : L80902DL1983PLC209722 पंजीकत कार्यालय :8-बी. 'सागर'. 6. तिलक मार्ग. नई दिल्ली-110001: दुरभाष : (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; फैक्स : (91) (11) 2378 2806, 23381914 ; ई-मेल : cs@somanigroup.com; वेबसाइट : www.eesl.in

30 जून, 2023 का समाप्त तिमाहा हुतु स्टण्डअलान एवं समाकत अनकक्षित वित्ताय पारणामा के विवरण का साराश विवरण 30 जुन, 2023 | 31 मार्च, 2023 | 30 जुन, 2022 | 31 मार्च, 2023 | 30 जुन, 2023 | 31 मार्च, 2023 | 30 जुन, 2022 | 31 मार्च, 2023 1,198.24 1.195.39 66.59 51.05 198.60 53.73 47.93 63.36 186.32 149.23 49.79 38.42 40.50 47,42 35.89 139.47 38.42 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 456.90 .919.58 (अ) बेसिक 0.84 3.05 (ब) डाइल्युटेड आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के पश्चात) (वार्षिकीकृत नहीं (अ) बेसिक 0.94 0.84 3.27 0.89 1.04 0.79 3.05

नोट : उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। स्टैण्डअलोन प समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.eesl.in पर उपलब्ध है।

1.09

बोर्ड के आदेशानुसा

कते इमर्जेंट इण्डस्टियल सॉल्यशन्स लिमिटे शोभा साहर्न (चेयर पर्सन

डीआईएन : 07478373

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड पंजी. कार्याः टोल प्लाजा, मयुर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091

टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440 CIN. No: L45101DL1996PLC315772; ईमेल: ntbcl@ntbcl.com,

वेबसाईट:www.ntbcl.com 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के अनेकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण		स्टैण	इएलो न			समे	कित	
सं.			समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही	-	समाप्त वर्ष
		30.06.2023 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2022 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2023 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2022 अलेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	प्रचालनों से कुल आय	375.33	522.85	650.73	2,681.83	375.41	523.38	650.76	2,682.84
II	कराधान के पूर्व वर्ष/अवधि हेतु लाभ	(916.62)	(1,010.52)	(881.24)	(3,527.51)	(919.14)	(1,008.69)	(882.54)	(3,512.90)
III	सतत प्रचालनों से निवल लाभ/(हानि)	(916.62)	(1,010.52)	(881.24)	(3,527.51)	(919.14)	(1,008.83)	(882.54)	(3,513.25)
IV	अविध हेतु कुल अन्य व्यापक आय	0.29	(0.63)	(0.47)	1.16	0.38	(1.09)	(0.39)	1.51
V	अविध हेतु कुल व्यापक आय	(916.33)	(1,011.15)	(881.71)	(3,526.35)	(918.76)	(1,009.92)	(882.93)	(3,511.74)
VI	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	आरिक्षिति (गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरिक्षिति को छोड़कर)	N/A	N/A	N/A	5,003.13	N/A	N/A	N/A	4,998.40
VIII	आय प्रति शेयर							Vi V	
	बेसिक	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)
	डाइल्यूटेड	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)	(0.49)	(0.54)	(0.47)	(1.89)

टिप्पणी तथा वित्तीय परिणाम :

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 14.08.2023

1. उपरोक्त परिणाम कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अध्यधीन रहे जिनकी ऑडिट कमिटी द्वारा की गई तथा 14 अगस्त, 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकत किये गये।

2. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2016 के अपने फैसले में 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर (रियायत समझौते की वैधता को चुनौती देते हुए और रियायत समझौते को रद्द करने की मांग करते हुए) कंपनी को निर्देश दिया था कि शुल्क वसूलने और संग्रह करने से संबंधित दो विशिष्ट प्रावधानों को निष्क्रिय मानते हुए, उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करना बंद करें, लेकिन रियायत समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, नोएडा ब्रिज के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह 26 अक्टूबर 2016 से निलंबित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्पेशल लीव एप्लीकेशन (एसएलपी) दायर की गई है जिसमें उक्त फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की

11 नवम्बर, 2016 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहायता मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना की कुल लागत कम्पनी द्वारा वसूल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी अंतिम सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में रखी जाये।

विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसुचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थापित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। चुंकि नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएडा के पास विवाचन की एक नोटिस भेजी थी।

विवाचन अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा दोनों कंपनी एवं नोएडा ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। आगे, नोएडा विवाचन कार्यवाही की मैन्टनैबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है जिसे आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया।

नोएडा ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1961 की धारा 34 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 10 अगस्त, 2018 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के

आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोएडा को बिना किसी राहत के 31 जनवरी, 2019 को निपटा दिया था। नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाचन कार्यवाहियों के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाहियों

पर स्टे का निर्देश दिया। 31 जनवरी,2020 को, कंपनी ने 12 अप्रैल, 2019 के आदेश के तहत दिए गए अंतरिम स्थगन की छुट्टी के लिए एक आवेदन दायर किया। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, सुप्रीम

कोर्ट का कामकाज केवल अत्यावश्यक मामलों तक ही सीमित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2020, 5 अक्टूबर, 2020, 18 नवंबर, 2020, 20 जनवरी, 2021, 16 मार्च, 2021, 15 अप्रैल, 2021, 26 जुलाई, 2021, 10 अगस्त, 2021, 8 सितंबर, 2021 और बाद में 26 अक्टूबर, 2021 के लिए पोस्ट कर दिया गया। इस बीच, कंपनी को 4 अक्टूबर, 2021 को नोएडा से 30 सितंबर, 2021 को मांग का अंतिम नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें नोएडा ने कथित रूप से 26.05 करोड़ रुपये की मांग की, जो कंपनी द्वारा भुगतान की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर देय होगा, जिसमें विफल रहने पर नोएडा डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा की तरफ सभी विज्ञापन डिस्प्ले को हटाने की धमकी दी। उक्त नोटिस

प्राप्त होने पर, कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 4 अक्टूबर, 2021 को एक अंतरिम आवेदन दायर किया। कंपनी द्वारा दायर तत्काल पत्र/उल्लेख के आधार पर. मामले को

26 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया गया था। कंपनी द्वारा नोएडा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सभी घटनाक्रमों की सुचना देने के बावजूद, नोएडा के अधिकारियों ने 14 अक्टूबर, 2021 को डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा की ओर के सभी विज्ञापन डिस्प्ले को अवैध रूप से हटा दिया। इसके अलावा, समय की कमी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया था। कंपनी ने एक बार फिर 28 अक्टूबर, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तात्कालिकता का उल्लेख किया और मामले को 9 नवम्बर, 2021 को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया गया और बाद में 1 दिसंबर, 2021 और 🤅 दिसंबर, 2021 पर सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया। इसके बाद, 9 दिसंबर,2021 को, मामले का उल्लेख किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर, 2021, 6 जनवरी, 2022 और 10 जनवरी, 2022 को सुना गया। 19 जनवरी, 2022 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर, 2021 अक्टूबर को दायर अंतरिम आवेदन का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि कंपनी को कंपनी के नेतृत्व में 2016 के एसएलपी के प्रतिफल के अधीन 125 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह के भुगतान पर बाहरी विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जा सकती है।

एसएलपी को अंतिम निपटान के लिए 29 मार्च, 2022 के लिए पोस्ट किया गया था, और इसे प्रत्येक बार समय की कमी के कारण 10 मई, 2022, 23 अगस्त, 2022, 18 अक्टूबर, 2022 2 नवंबर, 2022 और 10 जनवरी, 2023 के लिए पोस्ट कर दिया गया। इसके पश्चात मामले की सुनवाई 27 जुलाई, 2023 को हुई और अब इसे सितम्बर, 2023 के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता से कैंग द्वारा प्रस्तत रिपोर्ट का परीक्षण करने और उक्त तिथि पर माननीय उच्चतम न्यायालय की सहायता करने का अनरोध किया।

रियायत समझौते (मुआवजे और अन्य संसाधनों से संबंधित) के प्रावधानों पर निदेशक मंडल द्वारा रखी गई कानुनी राय और निर्भरता के आधार पर, कंपनी को विश्वास है कि अमूर्त और अन्य संपत्तियों के अंतर्निहित मुल्य बिगड़े नहीं हैं।

कम्पनी परियोजना आस्तियों के रखरखाव सहित कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार अपने दायित्व को पूर्ण करती रहेगी।

. 20 सितंबर, 2021 को, कंपनी को निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के साथ पठित आयकर विभाग से धारा 143(3) के तहत निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से भूमि के मूल्यांकन के कारण, भूमि को राजस्व सब्सिडी मानने के कारण 46.23 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

कंपनी ने 30 सितंबर.2021 को आयकर के निर्धारण अधिकारी से दंड की कार्यवाही को रोके रखने का अनुरोध किया और 19 अक्टूबर,2021 को आयकर आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) के पास उक्त निर्धारण आदेश के विरूद्ध एक अपील दायर की।

दिसंबर 2019 के दौरान कंपनी को आयकर अधिनियम. 1961 की धारा 143(3) के तहत आयकर विभाग से निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 हेत निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें क्रमशः 357 करोड़ रुपये और 383.48 करोड़ रुपये की मांग की गई है। कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद पर आधारित है, जो मुख्य रूप से भविष्य में वसुल की जाने वाली निर्दिष्ट रिटर्न की बकाया राशि. भिम के मुल्यांकन और अन्य वसुलियों के कारण है। कंपनी ने प्रथम स्तर के अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। फेसलेस अपील में संक्रमण

के साथ, जैसा कि फेसलेस अपील योजना, 2020 के तहत पेश किया गया था, दोनों अपीलों को एनएफएसी में स्थानांतरित कर दिया गया है। कंपनी को नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए एनएफएसी से एक कारण बताओ नोटिस, दिनांक 15 मई,2021, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के तहत प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने अनुरोध किया है कि दंड की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए क्योंकि योग्यता के आधार पर अपील वर्तमान में आयकर आयक्त (अपील) के समक्ष लंबित है। आयकर विभाग ने पहले के वर्षों में 1,340.03 करोड़ रुपये की मांग की है, जो मुख्य रूप से भूमि के आवंटन के कारण टोल और राजस्व सब्सिडी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले नामित रिटर्न के बकाया के कारण था। 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश प्राप्त होने के अनुसरण में, सीआईटी (ए) के उक्त आदेश के अनुसार, जिससे 10,893.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी. कंपनी को निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग, नई दिल्ली से निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के प्रभाव के संबंध में मांग का नोटिस प्राप्त हुआ है। मांग में वृद्धि मुख्य रूप से भूमि के मुल्यांकन के कारण हुई। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के साथ स्टे आवेदन के साथ एक अपील दायर की है

आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर, 2018, 2 जनवरी, 2019 और 6 फरवरी, 2019 को मामले की सुनवाई की गई और 15 अक्टूबर, 2018 के एनसीएलएटी आदेश के आधार पर, आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निदेशों के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थिगित कर दिया। इसके अलावा, नवंबर 2018 में, सीआईटी (ए), नोएडा ने निर्धारण वर्ष 2006–07 से 2014–15 के लिए जुर्माना आदेश पारित किया, जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी दिल्ली ने दिसंबर 2018 में 10,893.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के साथ एक स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की। आईटीएटी ने

मामले की सुनवाई 29 मार्च 2019 और 3 मई 2019 को की थी। आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थिगित कर दिया है। 21 अप्रैल, 2022 को, कंपनी ने माननीय आईटीएटी के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया और बाद में आईटीएटी द्वारा 6 मई, 2022 को मामले की सुनवाई की गई। स्थगन आवेदन के साथ मेरिट के आधार पर अपील 21 जुलाई, 2022 और 20 अक्टूबर, 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट की गई थी, हालांकि विभाग द्वारा नियुक्त विशेष वकील द्वारा

स्थगन की मांग करने के कारण मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी और मामले को 25 जनवरी, 2023 को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया गया। 25 जनवरी, 2023 और 15 मार्च, 2023 को माननीय आईटीएटी के ही एक विद्वान सदस्य दो अलग-अलग बेंचों की अध्यक्षता कर रहे थे और समय की कमी के कारण मामले को नहीं लिया जा सका। चुंकि अपील स्टे द्वारा कवर की जाती हैं, तदनुसार कंपनी के वकील के अनुरोध पर, माननीय आईटीएटी ने विभाग को सुनवाई की अगली तारीख यानी 5 जुन, 2023 तक

कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कंपनी ने 5 जून, 2023 को माननीय आईटीएटी से मामले पर बहस करने के लिए दो स्पष्ट तारीखों का अनुरोध किया और सुनवाई की अगली तारीख यानी 26 जुलाई, 2023 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया। तदनुसार, 26 जुलाई, 2023, 1 अगस्त, 2023 को मामले की सुनवाई, बहुस और प्रतिवाद किया गया और 2 अगस्त, 2023 को समाप्त हुआ। नतीजतन, 8 अगस्त, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से, माननीय आईटीएटी ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2011-12 के लिए अपना निर्णय सुनाया है जिसमें राजस्व की अपीलें

खारिज कर दी गईं और कंपनी की अपील की अनुमति दी गई, इस प्रकार आईटीएटी के साथ 23,127 करोड़ रुपये के अपील में कुल मांग का लगभग 72% संबोधित किया गया। आकलन वर्ष 2012-13 से 2014-15 से संबंधित लंबित अपीलों के लिए सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर, 2023 तय की गई है। . कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा 21 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलएटी) के पास दाखिल शपथपत्र के सन्दर्भ में 15 अक्टूबर, 2018 को कट–ऑफ तिथि (''कट–ऑफ तिथि'') प्रस्तावित की गयी। माननीय एनसीएलएटी ने अपने आदेश दिनांक 12 मार्च, 2020 के माध्यम से इसके संशोधनों सहित नये बोर्ड द्वारा प्रस्तत संशोधित समाधान

फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। माननीय एनसीएलएटी ने कंपनी समेत आईएल एंड एफएस और इसकी समूह कंपनियों के लिए संकल्प प्रक्रिया शुरू करने के लिए कट ऑफ तिथि के रूप में 15

अक्टूबर, 2018 को भी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, कंपनी ने 15 अक्टूबर, 2018 (''कट-ऑफ तिथि'') से प्रभावी अपने सभी ऋणों और उधारों पर कोई ब्याज नहीं दिया है। 5. 23 अगस्त, 2018 और 1 नवंबर, 2018 के लाइसेंस समझौते और 1 जुलाई, 2019 के परिशिष्ट के अनुसार, पूर्व लाइसेंसधारी के साथ, कंपनी ने उक्त अनुबंध को उसके प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दिया है। पूर्व लाइसेंसधारी ने कंपनी के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की है। इस संबंध में मामले की सुनवाई विद्वान आर्बिट्रेटर द्वारा 6 दिसंबर, 2022, 9 दिसंबर, 2022, 1 दिसंबर, 2022, 21 जनवरी, 2023, 1 फरवरी, 2023, 13 फरवरी, 2023, 3 मार्च, 2023, 11 मार्च, 2023 और 4 मई, 2023, 7 जुलाई, 2023 को सुनवाई की गयी और अब इसे 17 अगस्त, 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है। कंपनी ने 3 मार्च, 2023 के आर्बिट्रेटर के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें कंपनी को दिल्ली के माननीय उच्च

न्यायालय में मामले के अंतिम निपटारे तक मध्यस्थ के उक्त आदेश पर रोक प्राप्त करने के लिए आर्बिट्रेटर के पास 5 करोड़ रुपये की सावधि जमा जमा करने की आवश्यकता थी। 6. खातों की पुस्तकों को फिर से खोलना, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ('एसएफआईओ') और अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा जांच और ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी द्वारा फोरेंसिक जांच,

जो कछ समह संस्थाओं के लिए प्रक्रिया में है, का कंपनी के वित्तीय विवरणों / संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पडा है।

7. कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड-वार जानकारी का विवरण लागू नहीं है।

8. 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, 31 मार्च,2023 को समाप्त पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर,2022 को समाप्त तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्षी के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं, जो सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन हैं।

9. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार

है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमशः www.ntbcl.com www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

10. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के आंकड़े पुनर्समृहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से धीरज कुमार

राजीव जैन

IMPORTANT Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

बइजलास श्री कमल सोनी वाद मनोहर लाल वगै. प्रतिवादी श्यामवती ठाकुर व दावा बाबत इकरारनामा की विनिर्दिष्ट, पालना मकदमा नं. Co 06 वर्ष | 2023 बन मसम्मी नीलम मिन्हास पत्री स्व. श्री जान चन्द्र पत्नी श्री एम. मिन्हास उम्र ५६ वर्ष ज राजपूत (ठाकुर) निवासी-म.नं. 584, गली नं. 20. डी. डी. ए. जनता फलेव मदनगीर .कि मनोहर लाल वगै. वादी ने तुम्हारे खिलाफ (51 अम्बेडकर नगर) रि वाद संस्थित किया है अतएव तुम्हे एतद्वारा आहत किया जाता है कि तुम या तो स्व या ऐसे अधिवक्ता द्वारा जो कि समय के रूपेण अनविष्ठ है और वाद सम्बन्धी सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सब प्रश्नों के उत्तर देने में समक्ष है दिनाक 21 माह 08 सन 2023 वार... को 10 अद मे दावे का उत्तर | देने के लिए इस न्यायालय में उपस्थित हो और तम्हें आगे निर्देश दिया जाता है कि तुम उस दिन अपनी प्रतिरक्षा को लिखित कथन फाईल व और उस दिन सब दस्तावेजों को जो तम्हारे कब्जे या शक्ति में हो पेश करो जिन तुम अपनी प्रतिरक्षा या मुबरा या एतदावा निर्भर करते हो वहा तुम अपनी प्रतिरक्षा म प्रतिदावा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के र आगे को जाने वाली सची में प्रविष्ट करोगे। तमको यह सचना दी जाती है पर्वव दिवस की तुम्हारी उपजाति चैक होने पर वाद तुम्हारी अनुपस्थिति में सुना जावेगा अँ

अवधारित किया जावेगा ।

. गरिशिष्ट - ख- संख्या 2) अज श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मकाम रायसिंह

न्यायालय की आज वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (राज

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित आज दिनांक 08 -08 -2023 को निकाला





ASHIANA HOUSING LIMITED

Registered Office: 5F Everest, 46/C. Chowringhee Road, Kolkata, West Bengal-700071 Correspondence Address: 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi-110 017 Tel. No.: +91 011-42654265

Corporate Identification Number (CIN): L70109WB1986PLC040864 Contact Person: Mr. Nitin Sharma, Company Secretary and Compliance Officer Email ID: investorrelations@ashianahousing.com; Website: www.ashianahousing.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS /BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF ASHIANA HOUSING LIMITED

This post Buy Back public advertisement (the "Post Buy Back Public Announcement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("SEBI Buy Back Regulations") regarding completion of the Buy Back. This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated July 13, 2023 published on July 14, 2023 ("Public Announcement") and the letter of offer dated July 29, 2023 ("Letter of Offer"), issued in connection with the Buy Back.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. BUY BACK

- 1.1. Ashiana Housing Limited (the "Company") had announced the Buy Back of upto 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each of the Company ("Equity Shares" or "Shares"), at a price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One only) per Equity Share payable in cash for an aggregate amount of upto ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding expenses incurred or to be incurred for the Buy Back, which represents 7.23% and 7.32% of the aggregate of Company's fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2023 respectively, through the tender offer route using the stock exchange mechanism. on a proportionate basis from all the equity shareholders/beneficial owners of the Equity Shares of the Company as on the Record Date, in accordance with the Act and the SEBI Buy Back Regulations.
- 1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buy Back. The Buy Back was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, read with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular bearing number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023 including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- The Buy Back Opening Date was Wednesday, August 02, 2023 and the Buy Back Closing Date was Tuesday, August 08, 2023.
- 2. DETAILS OF THE BUY BACK
- 2.1. The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Buy Back were 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares, at the price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One Only) per Equity Share.
- 2.2. The total amount utilized in the Buy Back was ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding Transaction Costs
- 2.3. The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited ("Registrar"), considered a total of 15,659 valid bids for 7,69,46,135 Equity Shares in response to the Buy Back, which is approximately 42.11 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buy Back	No of valid Bids	Total no of Equity Shares validly tendered	Response (%)	
Reserved category for Small Shareholders	2,74,087	14,587	12,30,298	448.87	
General category for all other Eligible Shareholders	15,53,155	1,072	7,57,15,837	4,874.97	
Total	18,27,242	15,659	7,69,46,135	4,211.05	

2.4. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buy Back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was sent by the Registrar to the Eligible Shareholders, on Monday, August 14, 2023 (by email where the email id is registered with the Company or the depository) and was dispatched on Monday, August 14, 2023 (through physical intimation where email id is not available).

2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on Monday, August 14

- 2023. Clearing Corporation has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buy Back. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/ relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Seller Members for onward transfer to such shareholders
- 2.6. Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buy Back were transferred to the Company's demat account on Monday, August 14, 2023. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders /custodians by release of lien on such Equity Shares by the Clearing Corporation on Monday, August 14, 2023. Excess physical Equity Shares pursuant to proportionate acceptance/rejection will be returned back to the Eligible Shareholder directly by the Registrar to the Buy Back.
- 2.7. The extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted under the Buy Back, comprising of 18,27, 208 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Eight) Equity Shares in dematerialized form and 34 (Thirty Four) Equity Shares in physical form, is currently under process and will be completed in accordance with the SEBI Buy Back Regulations, on or before Tuesday, August 22, 2023.
- 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- The capital structure of the Company pre and post Buy Back is set forth below:

Sr. No.	Particulars	Amount (in ₹)
Α	Authorised Share Capital	
	17,50,00,000 Equity shares of ₹ 2/- each	35,00,00,000
В	Issued, Subscribed and Paid Up Capital before the Buy Back	
	10,23,52,099 Equity shares of ₹ 2/- each	20,47,04,198
С	Issued, Subscribed and Paid Up Capital after the Buy Back*	
	10,05,24,857 Equity shares of ₹ 2/- each	20,10,49,714

*Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back

3.2. Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buy Back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buy Back	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of the total post Buy Back Equity Share capital of the Company*
1	Varun Gupta	3,99,241	21.85	0.40
2	Ankur Gupta	3,99,202	21.85	0.40
3	Vishal Gupta	2,77,207	15.17	0.28
4	Rachna Gupta	1,22,104	6,68	0.12
5	SBI Contra Fund	85,086	4.66	0.08
6	OPG Realtors Limited	34,176	1.87	0.03
7	ICICI Prudential Equity & Debt Fund	32,391	1.77	0.03
0	0.1.0	00.404	4.40	0.00

8 Cellour Commercial Pvt Ltd 20,104 1.10 *Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy Back (i.e., as of the Record Date, being Friday, July 28, 2023) and post the completion of the Buy Back is as follows:

	Pre Buy	Back#	Post Buy Back*		
Particulars	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	
Promoter and Promoter Group	6,26,58,716	61.22	6,14,26,786	61.11	
Financial Institutions / Banks/AIFs and Mutual Funds	72,92,408	7.12	76 00000	i i	
Foreign Investors (including Non Resident Indians / FPI / Foreign Nationals / Foreign Bodies Corporate etc.)	91,37,128	8.93	3,90,98,071	38.89	
Others (public, public bodies corporate, trust, etc.)	2,32,63,847	22.73			
TOTAL	10,23,52,099	100.00	10,05,24,857	100.00	

As on the Record Date

*Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back

4. MANAGER TO THE BUY BACK

EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Contact Person: Mr. Deepak Yadav/ Mr. Pranav Nagar Regd. Off.: The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar-West, Mumbai - 400028, Maharashtra Tel. No.: +91 22 66121212; Fax No.: +91 22 66121299

Email id: ahl.buyback@emkayglobal.com Website: www.emkayglobal.com

SEBI Rean. No.: INM000011229

Validity Period: Permanent CIN: L67120MH1995PLC084899

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

Date: August 14, 2023

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company ("Board") accepts responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that this Post Buy Back Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Post Buy Back Public Announcement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on July 12, 2023 and by the Buy Back Committee on August 14, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of Ashiana Housing Limited					
Sd/-	Sd/-	Sd/-			
Mr. Vishal Gupta	Mr. Varun Gupta	Nitin Sharma			
Managing Director	Director	Company Secretary and Compliance Office			
DIN: 00097939	DIN: 01666653	(ICSI Membership No.: A21191)			
Place: Frankfurt	Place: New Delhi	Place: New Delhi			

दिनांक: 14 अगस्त, 2023

स्थान : नोएडा

www.readwhere.com

कार्यकारी निदेशक डीआईएन नंबर। 07046151 मुख्य वित्तीय अधिकारी

আমার বাংলা

বোর্ড গঠনে বাধা এলেও অবশেষে গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড গঠনে বিরোধী দলগুলি যে ষড়যন্ত্র করেছিল তা আবারও সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল হওয়া একটি বক্তব্যের মাধ্যমে বেরিয়ে এল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে গয়েশবাডি অঞ্চল কমিটির তৃণমূলের এক যুব নেতা সেদিনের ঘটনার বিষয়গুলি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। অভিযোগ, তাদেরকে বিরোধীরা প্ররোচিত করেই বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে গোলমাল পাকানোর চেস্টা করেছিল। কিন্তু বিরোধীদের সেই ষড়যন্ত্রে জল ঢেলে দেয় তৃণমূল। গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন

করে তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ অগস্ট গয়েশবাড়ি বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের কি ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল সেই ব্যাপারে সোমবার তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বোসনি সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন। কিন্তু শত ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার পরেও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বোর্ড গঠনে সাফল্য পেয়েছে। গয়েশবাডি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন রহিমা হোসেন এবং উপপ্রধান হয়েছেন মেহেরুন নেশা।

উল্লেখ্য, কালিয়াচক ১ ব্লুকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯ অগস্ট বোর্ড গঠন হয়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ২৬।



তৃণমূলের রয়েছে ১৫ টি আসন। কংগ্রেসের রয়েছে ৯টি আসন, সিপিএম পেয়েছে ২টি আসন ও আইএসএফ পেয়েছে ১টি আসন।

৯ অগস্ট পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের দিন গয়েশবাড়ি তৃণমূল অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বোসনির বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধান গঠনের নামে টাকা লেনদেনের বিস্তর অভিযোগ ভাইরাল হয়েছিল। সেই দিন বিরোধীদের শত পরিকল্পনা বানচাল করেই ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। আর এর কিছুদিন পরেই বিরোধীরা যে ষড়যন্ত্র করে বোর্ড গঠনে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেছিল তা নতুন করে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল হওয়া একটি বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে

যুব তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সহ-সভাপতি কামাল শেখ বলছেন, প্রধান গঠনের ক্ষেত্রে টাকা পয়সার কোনো রকম লেনদেন হয়নি। তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বোসনি বাড়িতে গিয়ে টাকা লেনদেনের যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিরাজুল বোসনির ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আমার কাছে টাকা পেতেন। সেই টাকায় তাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিরোধীরা সেই ছবি কারচুপি করে মিথ্যা ভাবে ভাইরাল

এদিকে পুরো বিষয়টি সামনে আসতেই বিরোধী দল কংগ্রেস, বিজেপি , সিপিএমকে এক হাত নিয়েছে তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বোসনি। তিনি বলেন, এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধীরা অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে তৃণমূলের প্রত্যেক সদস্যদের সমর্থন নিয়েই বোর্ড গঠনে সাফল্য পেয়েছি। আর সেখানে একটা মিথ্যা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে শুধু আমার নয়, তৃণমূলের বদনাম করার চেষ্টা করেছে। এরপরই আসল ঘটনা সামনে চলে এসেছে । সবাই তা দেখতে পেয়েছে। পুরো বিষয়টি জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছি। যারা এই ধরনের জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে । তাদের বিরুদ্ধে যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে ব্যাপারে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

কন্যাশ্রীতে শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় উত্তর ২৪ পরগনা



নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কন্যাশ্রীর ১০ তম বর্ষে শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। পাশাপাশি রাজ্যে বেস্ট অ্যাচিভারের তালিকায় দুই কন্যাশ্রী। সোমবার ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী তথা বিশ্ববন্দিত প্রকল্প কন্যাশ্রী দিবস। সেই উপলক্ষে উত্তর ২৪ প্রগনার রবীন্দ্র ভবনে আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হল দিনটি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি, এডিএম

ট্রেজারী তাহেরুজ্জামান, ডিআইসিও পল্লব পাল, বারাসাতের মহকুমা শাসক সোমা সাউ সহ অন্যান্য মহকুমা শাসক এবং প্রচুর কন্যাশ্রী মেয়েরা। এদিন এডিএম (ট্রেজারী) তাহেরুজ্জামান বলেন, এবার কন্যাশ্রীতে বেস্ট পারফর্ম করেছে ৫টি জেলা। তার মধ্যে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা।

বাকিগুলি হল হুগলি, হাওড়া, নদিয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর। এছাডাও রাজ্যে বেষ্ট অ্যাচিভার তালিকায় আছে এই জেলার বিপাশা বারুই ও পল্লবী ঢালি। তিনি আরও জানান, আমাদের জেলার নিরিখে কন্যাশ্রী নিয়ে সবথেকে ভালো কাজ করেছে বিধাননগর মহকুমা এবং ব্লুকের নিরিখে বারাসাত ২ নম্বর ব্লক। এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কন্যাশ্রীর প্রতিটি বিভাগের প্রথম তিন জন কন্যাশ্রী মেয়েদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদিন পুরস্কৃত কন্যাশ্রীরা মঞ্চে তাদের সাফল্যের বক্তব্য রাখে।

মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি নির্বাচিত হলেন প্রতিভা রানি মাইতি। এর আগে ২০১৩ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দু'দফায় সভাধিপতির দায়িত্ব সামলেছেন গড়বেতার বর্তমান বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা। এবার জেলা পরিষদের দশম সভাধিপতি হলেন প্রতিভা রানি মাইতি, সহ সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কো-অর্ডিনেটর তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি। এবারের নির্বাচনে গডবেতা থেকে ৫১ নম্বর জেলা পরিষদ আসনে বিদায়ী সভাধিপতি উত্তরা সিংহ হাজরা রেকর্ড ভোটে জিতলেও দলীয় মহলের বক্তব্য ছিল, তাঁর পুনরায় সভাধিপতি হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। গত বছর মে মাসে জেলা সফরে এসে প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরার প্রতি

निজন্ব প্রতিবেদন,



অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাই ধরেই নেওয়া হয়েছিল এবার জেলা পরিষদে নতুন সভাধিপতি পেতে চলেছে পশ্চিম মেদিনীপুর। নয়া সভাধিপতি হিসাবে দলীয় মহলে নাম উঠছিল অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান নেত্রী তথা বিদায়ী বোর্ডের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রতিভা রানি মাইতির। পশ্চিম মেদিনীপর জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনটিও মহিলা সংরক্ষিত। পশ্চিম মেদিনীপরে জেলা পরিষদের ৬০টি আসনেই জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তাঁকেই এবার স্বীকৃতি দেওয়া হল।



নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসটস লিমিটেড

CIN: L92419WB1989PLC046487 রেজিস্টার্ড অফিস: "ঝিল মিল" সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬ ই-মেল : niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com



৩০ জুন, ২ অনিরীণি	২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসে ক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ	<u>ত্</u>
	ST Charles to the same of the	

							(লক্ষ টাকায়)
		স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত
	_	৩০.০৬.২০২৩		৩ 0.0৬.২0২২			
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রস্টব্য)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
١.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২৭৮৮.১০	১৯৮২.৪২	২৫০১.৮৭	২৭৮৮.১০	১৯৮২.৪২	২৫০১.৮৭
٤.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য						
	(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১৩৯৬.৮২	8 <i>২২.৬৬</i>	১২৮৫.৪৩	\$৫0৫.85	8৮৮.২8	১৩৯১.৮২
o .	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব সময়কালের জন্য						
	(ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১৩৯৬.৮২	৪২২.৬৬	১২৮৫.৪৩	\$606.85	৪৮৮.২৪	১৩৯১.৮২
8.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের						
	জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	3003.09	৩১৪.৬৮	৯৪৬.৪০	\$088.66	৩৬৫.২৬	৮২৬.৭৭
Œ.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য						
	[এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী)						
	এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	৯৭৯.৩২	১৮৩.৯৪	৯৫৬.৯৩	১১৩৪.৯৫	২০৫.০১	b86.bb
છ.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১ টাকা প্রতি শেয়ার)	८७४.००	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০
٩.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	৫৫৭৮.৭৩	৪০২৭.১৩	৪০২৭.১৩	৭০৪৫.৩২	৫২৩১.৩২	৫২৩১.৩২
	বিগত গণনা বর্ষের উদ্বর্তপত্রে দর্শিত পুনর্মূল্যায়ণ	o5.00.২0২o	05.00.2022	<i>৩১.০৩.২০২২</i>	o\$.00.2020	o5.00.২0২২	<i>\$</i> \$.00.2022
	ব্যতীত মজুত	তারিখে	তারিখে	তারিখে	তারিখে	তারিখে	তারিখে
ъ.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য						
	(ফেস ভ্যালু ১/- টাকা প্রতিটি)						
	- মূল এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	۷.১8	०.७१	২.০২	২.৩২	0.95	3.99

দ্রস্টব্য :

স্থান: কলকাতা তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৩

- ১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেণ্ডলেশনস, ২০১৫ -এর রেণ্ডলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জেস ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.niccoparks.com) -তে।
- ২. ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কর্মিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তারপর পরিচালন পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৪ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নথিভুক্ত হয়েছে। বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকেরা ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রেমাসিকের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনাও করেছেন।
- ৩. ২৩.০২.১৯৯০ তারিখের জয়েন্ট সেক্টর এগ্রিমেন্ট (''জেএসএ") অনুসারে দ্য ন্যাশনাল ইনসূলেটেড কেবল কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (বর্তমানে নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড নামে পরিচিত - এনসিএল লিকুইডেশনের অধীনে), ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিটিভিসি) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিআইডিসি) এর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল, কোম্পানির জমি যেটিতে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং এফএন্ডবি এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কোম্পানিকে ৩৩ বছরের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে আরও দুটি মেয়াদের জন্য পুননবীকরণ ধারা শর্ত সহ। এনসিএল-এর বিরুদ্ধে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে, তাদের হাতে থাকা কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর ফলে, এতে উল্লেখিত জেএসএ অকার্যকর এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অধিকস্তু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গভর্নর এবং কোম্পানির মধ্যে ৫.০৭.১৯৯১ তারিখের চুক্তির মাধ্যমে ৩৩ বছরের ইজারার প্রথম মেয়াদ ২৩.০২.২০২৩ -এ শেষ হয়েছে যা সেই তারিখ থেকে পুনর্ববীকরণের জন্য রয়েছে। তদনুসারে, যথাসময়ে এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য উপরোক্ত চুক্তিগুলিকে আনুষ্ঠানিক করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইজারা চুক্তি পুনর্নবীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সাথে ১১.১০.২০২২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে করা হয়েছে, যা এই তারিখ পর্যন্ত কার্যকর করার জন্য মুলতুবি রয়েছে। ব্যবস্থাপনার দ্বারা বলা হয়েছে, এটি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এর মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপরে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মুলতুবি ফলাফল, অপারেশন এবং সম্পর্কিত ব্যবস্থাণ্ডলিকে চলমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উদ্বেগের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আর্থিক বিবৃতি তৈরি করা অব্যাহত রয়েছে।
- ৪. ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষের জন্য একটি অন্তর্বতীকালীন লভ্যাংশ ৫০ শতাংশ হারে পরিচালনা পর্যদ তার উপরোক্ত সভায় অনুমোদন করেছে।
- ৫. ক) পার্কের এফ অ্যান্ড বি এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদজনক কার্যাবলী বদলি মরশুমের উপর নির্ভরশীল খ) রাইডসের মন্ত্রণা, চুক্তি ও অংশাদি বিক্রি ও পরিবর্তন সাপেক্ষ যা চুক্তি সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।
- ৬. পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পক্ষে রাজেশ রায়সিংহানি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও (DIN: 07137479)

কন্যাশ্রী দিবসে কন্যাশ্রীদের উদ্দেশে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কন্যাশ্রী দিবসে কন্যাশ্রীদের উদ্দেশ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও আচরণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী বারাসাত কালিকৃষ্ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ঘটনার পরপরই বারাসাত থানায় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা

মৌসমি সেনগুপ্ত জানান, কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে মেয়েরা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করছিল। পাশাপাশি স্বাধীনতা দিবস ও শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের অনুশীলন করছিল মেয়েরা সেই সময় এক ব্যক্তি মেয়েদের উদ্দেশে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ করে। মেয়েরা বিষয়টি শিক্ষিকাদের জানাতেই ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।

ashiana

ASHIANA HOUSING LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L70109WB1986PLC040864
Contact Person: Mr. Nitin Sharma, Company Secretary and Compliance Officer
Email ID: investorrelations@ashianahousing.com; Website: www.ashianahousing.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS /BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF ASHIANA HOUSING LIMITED

This post Buy Back public advertisement (the "Post Buy Back Public Announcement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("SEBI Buy Back Regulations") regarding completion of the Buy Back. This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated July 13, 2023 published on July 14, 2023 ("Public Announcement") and the letter of offer dated July 29, 2023 ("Letter of Offer"), issued in connection with the Buy Back.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- 1.1. Ashiana Housing Limited (the "Company") had announced the Buy Back of upto 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each of the Company ("Equity Shares" or "Shares"), at a price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One only) per Equity Share payable in cash for an aggregate amount of upto ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding expenses incurred or to be incurred for the Buy Back, which represents 7.23% and 7.32% of the aggregate of Company's fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2023 respectively, through the tender offer route using the stock exchange mechanism, on a proportionate basis from all the equity shareholders/beneficial owners of the Equity Shares of the Company as on the Record Date, in accordance with the Act and the SEBI Buy Back Regulations.
- 1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buy Back. The Buy Back was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, read with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular bearing number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023 including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- 1.3. The Buy Back Opening Date was Wednesday, August 02, 2023 and the Buy Back Closing Date was Tuesday, August 08, 2023.
- DETAILS OF THE BUY BACK
- 2.1. The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Buy Back were 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares, at the price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One Only) per Equity Share.
- 2.2. The total amount utilized in the Buy Back was ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding Transaction Costs
- 2.3. The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited ("Registrar"), considered a total of 15,659 valid bids for 7,69,46,135 Equity Shares in response to the Buy Back, which is approximately 42.11 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buy Back	No of valid Bids	Total no of Equity Shares validly tendered	Response (%)
Reserved category for Small Shareholders	2,74,087	14,587	12,30,298	448.87
General category for all other Eligible Shareholders	15,53,155	1,072	7,57,15,837	4,874.97
Total	18,27,242	15,659	7,69,46,135	4,211.05
Total	10,27,242	15,659	7,09,40,133	4,211.

- 2.4. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buy Back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was sent by the Registrar to the Eligible Shareholders, on Monday, August 14, 2023 (by email where the email id is registered with the Company or the depository) and was dispatched on Monday, August 14, 2023 (through physical intimation where email id is not available).
- 2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on Monday, August 14, 2023. Clearing Corporation has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buy Back. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/ relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Seller Members for onward transfer to such shareholders.

2.6. Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buy Back were transferred to the Company's demat account on Monday,

August 14, 2023. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders /custodians by

- release of lien on such Equity Shares by the Clearing Corporation on Monday, August 14, 2023. Excess physical Equity Shares pursuant to proportionate acceptance/rejection will be returned back to the Eligible Shareholder directly by the Registrar to the Buy Back. 2.7. The extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted under
- the Buy Back, comprising of 18,27, 208 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Eight) Equity Shares in dematerialized form and 34 (Thirty Four) Equity Shares in physical form, is currently under process and will be completed in accordance with the SEBI Buy Back Regulations, on or before Tuesday, August 22, 2023.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1. The capital structure of the Company pre and post Buy Back is set forth below:

Sr. No.	Particulars	Amount (in ₹)
Α	Authorised Share Capital	
	17,50,00,000 Equity shares of ₹ 2/- each	35,00,00,000
В	Issued, Subscribed and Paid Up Capital before the Buy Back	
	10,23,52,099 Equity shares of ₹ 2/- each	20,47,04,198
С	Issued, Subscribed and Paid Up Capital after the Buy Back*	
	10,05,24,857 Equity shares of ₹ 2/- each	20,10,49,714
*Subject t	o extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accep	oted in the Buy Back

3.2. Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buy Back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buy Back	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of the total post Buy Back Equity Share capital of the Company*
1	Varun Gupta	3,99,241	21.85	0.40
2	Ankur Gupta	3,99,202	21.85	0.40
3	Vishal Gupta	2,77,207	15.17	0.28
4	Rachna Gupta	1,22,104	6.68	0.12
5	SBI Contra Fund	85,086	4.66	0.08
6	OPG Realtors Limited	34,176	1.87	0.03
7	ICICI Prudential Equity & Debt Fund	32,391	1.77	0.03
8	Cellour Commercial Pvt Ltd	20,104	1.10	0.02

*Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy Back (i.e., as of the Record Date, being Friday, July 28, 2023) and post the completion of the Buy Back is as follows:

	Pre Buy Back#		Post Buy Back*	
Particulars	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares
Promoter and Promoter Group	6,26,58,716	61.22	6,14,26,786	61.11
Financial Institutions / Banks/AIFs and Mutual Funds	72,92,408	7.12		
Foreign Investors (including Non Resident Indians / FPI / Foreign Nationals / Foreign Bodies Corporate etc.)	91,37,128	8.93	3,90,98,071	38.89
Others (public, public bodies corporate, trust, etc.)	2,32,63,847	22.73		
TOTAL	10,23,52,099	100.00	10,05,24,857	100.00

As on the Record Date

*Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back 4. MANAGER TO THE BUY BACK



EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Contact Person: Mr. Deepak Yadav/ Mr. Pranav Nagar

Regd. Off.: The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar-West, Mumbai - 400028, Maharashtra Tel. No.: +91 22 66121212; Fax No.: +91 22 66121299

Email id: ahl.buyback@emkayglobal.com Website: www.emkayglobal.com SEBI Regn. No.: INM000011229 Validity Period: Permanent

CIN: L67120MH1995PLC084899

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company ("Board") accepts responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that this Post Buy Back Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Post Buy Back Public Announcement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on July 12, 2023 and by the Buy Back Committee on August 14, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of Ashiana Housing Limited			
Sd/-	Sd/-	Sd/-	
Mr. Vishal Gupta	Mr. Varun Gupta	Nitin Sharma	
Managing Director	Director	Company Secretary and Compliance Officer	
DIN: 00097939	DIN: 01666653	(ICSI Membership No.: A21191)	
Place: Frankfurt	Place: New Delhi	Place: New Delhi	

Date: August 14, 2023



PRESSMAN















